



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2820]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्राहायण 9, 1938

No. 2820]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3599(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में,—

(क) खंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(vi) किसी बैंक खाते से, नकद निकासी इस प्रकार होगी, जैसा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु किसी चालू खाते से, नकद निकासी इस प्रकार होगी, जैसा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि चालू खातों के लिए उपबंधित निकासी सीमा, कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) बाजारों और मंडियों के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को भी लागू होगी।”;

(ख) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(viii) किसी एटीएम से नकद निकासी इस प्रकार होगी, जैसा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।”।

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उपपैरा (5) में, “सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम और श्वेत लेबल एटीएम रिजर्व बैंक से और अगले अनुदेश प्राप्त होने तक 100/- रुपए या 50/- रुपए अंकित मूल्य के बैंक नोटों का वितरण करेंगे।” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “पैरा 1 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि एटीएम और श्वेत लेबल एटीएम ऐसे बैंक नोटों का वितरण करेंगे, जैसा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डा. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको अधिसूचना सं. का.आ. 3418(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2016 द्वारा सही किया गया था और का.आ. 3446(अ) तारीख 13 नवंबर, 2016, का.आ. 3449(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2016, का.आ. 3479(अ) तारीख 17 नवम्बर, 2016, का.आ. 3488(अ) तारीख 18 नवम्बर, 2016 और का.आ. 3543(अ) तारीख 24 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, 30th November, 2016

S.O. 3599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 2,—

(a) for clause (vi), the following shall be substituted, namely:—

“(vi) cash withdrawal from a bank account over the counter shall be such as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time:

Provided that cash withdrawal from a current account shall be such as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time:

Provided further that the withdrawal limit provided for current accounts shall also be applicable to the traders registered with the Agricultural Produce Market Committee (APMC) markets and mandis.” ;

(b) for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(viii) cash withdrawal from an ATM shall be such as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time.”.

2. In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (5), for the words, letters and figures “paragraph 1 shall ensure that their ATMs and white Label ATMs shall dispense bank notes of denomination of Rs. 100 or Rs. 50, until further instructions from the Reserve Bank” the words, figure and letters “paragraph 1, ATMs and White Label ATMs shall dispense bank notes as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time”

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418(E) dated the 9th November, 2016 and amended *vide* S.O. 3446 (E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3449(E) dated the 14th November, 2016, S.O. 3479(E) dated the 17th November, 2016, S.O. 3488(E) dated the 18th November, 2016 and S.O. 3543(E) dated the 24th November, 2016.